



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महालेखाकार) लेखा व हकदारी(पंजाब एवं यू.टी., सैक्टर- 17ई, चंडीगढ़ - 160017.
Office of The Accountant General (A&E),
Punjab & U.T., Sector-17 E,
Chandigarh - 160017.

Phone: 0172-2702906, 2703117, 2709576,
Fax - 0172-2702286

Mail: agaepunjab@cag.gov.in

क्रमांक: Admn I/A/24-25/522

दिनांक: 07.03.2025



परिपत्र

इस कार्यालय के पत्र संख्या प्रशासन 1/32(4)/ प्रतिनियुक्ति /24-25/5555-56 दिनांक 29.01.2025 के क्रम में सूचित किया जाता है कि Regional Capacity Building & Knowledge Institute, Jammu के पत्र संख्या RCB&KI/J/A/2024-25/Dep/834 दिनांक 28.02.2025 द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने की अंतिम तिथि 26.03.2025 तक बढ़ाई जाती हैं।

संलग्न: यथोपरि ।

हस्ता

वरि. लेखा अधिकारी (प्रशासन 1)

क्रमांक प्रशासन 1/32(4)/ प्रतिनियुक्ति/24-25/6028-29

दिनांक: 07.03.2025

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है:

1. सूचना प्रौद्योगिकी सहायता कक्ष आधिकारिक वेबसाइट में अपलोड करने के लिए
2. कार्यालय आदेश फाईल

वरि. लेखा अधिकारी (प्रशासन 1)

O/o THE DIRECTOR GENERAL REGIONAL CAPACITY BUILDING & KNOWLEDGE INSTITUTE, JAMMU

No:RCB & KI/J/A/2024-25/Dep/834
Dated: 28-02-2025

To

CAG-All Offices (as per mailing list),

Subject: Deputation for the two posts of Clerkin RCB & KI, Jammu -regarding

Madam/Sir,

In continuation to this office notification issued under No: RTI/J/A/2024-25/Dep/769 dated 21-01-2025, the applications are again invited from the desirous candidates for 02 posts of Clerk on deputation basis in this office on usual terms and conditions. The eligibility criteria for deputation are as under:

S. No	Name of the Post	No of vacancies
1.	Clerk	02

Eligibility criteria:

1. Holding Analogous Post on regular basis in the parent office.
2. The applicant should be proficient in diarizing of DAK, maintenance of sectional diaries, proficiency in English and Hindi typing work in MS Office and MS Excel. Handling of Administrative work, such as correspondence and preparation of administrative reports including any other administrative work assigned by officers. The applicants possessing knowledge of working in the e-office will be given preference.
3. Minimum 03 years' experience
4. The application of the eligible and willing officials who can be spared immediately in the event of their selection on deputation to this office, accompanied with the following documents/certificates may kindly be forwarded to the undersigned latest by **26-03-2025**

i) Bio-Data

ii) Copies of APAR for the previous 3 years.

iii) Integrity certificate/Disciplinary/Vigilance clearance certificate.

Terms of deputation & selection process

1. The required documents of the eligible candidates forwarded by the respective parent offices may be scanned and sent by email to avoid postal delay.
2. The RCB & KI reserves the right to repatriate a deputationist at any time, if his/her performance is not found satisfactory.

3. Selection of a suitable official shall be made through the appropriate selection procedure for knowledge and skill based jobs and the selection of the applicant shall be notified.
4. Deputationist will be eligible for deputation (Duty) allowance as per extant rules.
5. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.
6. The candidate once selected for the post will not be allowed to withdraw his/her candidature subsequently.
7. The initial period of deputation will be for a period of three years and is extendable subject to performance and approval of Competent Authority.

A reference is invited to Headquarters Circular No. 269/Trg. Div./42-A/2019 dated 18.09.2019 wherein detailed instructions to field offices on augmentation of staff (Administration and Faculty) in RTIs/RTCs were issued for strict compliance. The instructions in the said circular are re-iterated below:

- a. Field offices shall display the deputation notifications issued by RCB & KIs on the notice boards and circulate among the staff giving reasonable time to the candidates for responding to the notification;
- b. Field offices shall forward all applications received from their officers/staff against the positions advertised by RCB & KIs to the concerned Institute/Centre, without withholding any application;
- c. On completion of the selection process, the field offices shall obligatorily relieve the selected official for administrative assignments at RCB & KIs at the earliest.

Yours faithfully,

Sd/-

Sr. Administrative Officer (Admn)